



भारत का राजपत्र


The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY



सं. 763]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 10, 1999/अग्रहायण 19, 1921

No. 763]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 10, 1999/AGRAHAYANA 19, 1921

मंत्रिमंडल सचिवालय

अधिमूचना

नई दिल्ली, 10 दिसम्बर, 1999

का.आ. 1231(अ).— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 77 के खण्ड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार (कार्य-आबंटन) नियम, 1961 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत सरकार (कार्य-आबंटन) (दो सौ छियालीसवां संशोधन) नियम, 1999 है।

(2) ये तुरंत प्रवृत्त होंगे।

2. भारत सरकार (कार्य-आबंटन) नियम, 1961 में,-

(1) प्रथम अनुसूची में, '44. योजना आयोग' शीर्ष के पश्चात्, निम्नलिखित शीर्ष जोड़ा जाएगा अर्थात् :-

'45. विनिवेश विभाग';

(2) 'दूसरी अनुसूची में, -

(क) 'भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय' शीर्ष के अधीन उपशीर्ष 'ख. लोक उद्यम विभाग' के अंतर्गत, प्रविष्टि 3 का लोप किया जाएगा।

(ख) 'योजना आयोग' शीर्ष और उसके अंतर्गत प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित शीर्ष और उससे संबंधित प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी, अर्थात् :-

'45. विनिवेश विभाग

1. केन्द्रीय पब्लिक सेक्टर उपक्रमों से केन्द्रीय सरकार की इक्विटी के विनिवेश से संबंधित सभी मामले ।
2. विनिवेश के तौर-तरीकों, जिसके अंतर्गत पुनर्गठन भी है, के बारे में विनिवेश आयोग की सिफारिशों पर निर्णय ।
3. विनिवेश संबंधी निर्णयों का कार्यान्वयन, जिसके अंतर्गत सलाहकारों की नियुक्ति, शेयरों का कीमत निर्धारण और विनिवेश की अन्य शर्तें भी हैं ।
4. विनिवेश आयोग ।
5. केवल सरकार की इक्विटी के विनिवेश के प्रयोजन के लिए केन्द्रीय पब्लिक सेक्टर उपक्रम ।'

[फाइल सं. 1/22/1/99-मंत्रि.]

जी. के. गाबा, उप सचिव

CABINET SECRETARIAT

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th December, 1999

S.O. 1231(E).— In exercise of the powers conferred by clause (3) of article 77 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, namely :-

1. (1) These rules may be called the Government of India (Allocation of Business) (Two hundred and Forty - sixth Amendment) Rules, 1999

(2) They shall come into force at once.

2. In the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, -

(1) in the First Schedule, after the heading "44. Planning Commission (Yojana Ayog)", the following heading shall be added, namely:-

"45. Department of Disinvestment (Vinivesh vibhag)".

(2) in the Second Schedule,--

- (A) under the heading "MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES (BHARI UDYOG AUR LOK UDYAM MANTRALAYA)", under sub-heading "B. DEPARTMENT OF PUBLIC ENTERPRISES (LOK UDYAM VIBHAG)", entry 3 shall be omitted.
- (B) after the heading "PLANNING COMMISSION (YOJANA AYOG)" and the entries thereunder, the following heading and entries relating thereto shall be added, namely:--

"45. DEPARTMENT OF DISINVESTMENT (VINIVESH VIBHAG)

1. All matters relating to disinvestment of Central Government equity from Central Public Sector Undertakings.
2. Decisions on the recommendations of the Disinvestment Commission on the modalities of disinvestment, including restructuring.
3. Implementation of disinvestment decisions, including appointment of advisers, pricing of shares, and other terms and conditions of disinvestment.
4. Disinvestment Commission.
5. Central Public Sector Undertakings for purposes of disinvestment of Government equity only."

[F. No. 1/22/1/99-Cab.]

V. K. GAUBA, Dy. Secy.

